

प्रेस विज्ञप्ति

पैसे छीनकर भाग रहे आरोपियों को पीआरवी 1041 ने पीछा करते हुये पकड़कर थाने के सुपुर्द किया  
पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वाँछित/वारण्टी व चोर/लुटेरो आदि अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के क्रम में आज दिनांक 02/11/2020 को समय 11:13 बजे पीआरवी 1041 थाना जीयनपुर अंतर्गत अपने निर्धारित प्वां इट राजघाट से इवेंट 3746 पर जा रही थी तभी रास्ते में जीयनपुर कस्बेप के पास एक व्यक्ति द्वारा पीआरवी को हाथ देकर रोका गया। पीआरवी द्वारा पास जाकर पूछताछ की गयी तो उक्ता व्य क्ति ने बताया कि मैंने 45,000/- रुपये बैंक से निकाले थे जो तीन संदिग्ध व्य क्ति आई 10 कार से लूटकर भाग गये हैं। पीआरवी ने त्वेरित कार्रवाई करते हुये इवेंट को ट्रॉसफर कर कंट्रोल के माध्य म से फील्ड इवेंट 4062 प्राप्त कर पीडित को पीआरवी पर बैठाकर बतायी गयी दिशा में सदर की तरफ पीछा किया। लगभग 17 किमी दूर पीछा करने पर आरोपी की कार दिखी जिसे पीआरवी द्वारा तेजी से पीछा करते हुये रोकने का प्रयास किया गया। पीआरवी को देखते ही आरोपी भागने लगे तो पीआरवी ने अपनी गाडी को आरोपियों की गाड़ी के आगे लगाकर तेजी से भागते हुये पीआरवी पर तैनात तीनों कर्मियों द्वारा उक्त संदिग्ध वाहन आई 10 कार को घेरकर रोककर कार में सवार तीन आरोपियों को पीआरवी द्वारा पकड़ लिया गया। जिनके पास से लूटे हुए 45,000/- रुपये एक रूमाल में बंधे बरामद हुए। पीआरवी ने तुरंत तीनों आरोपियों को पकड़कर मय बरामद रुपये व आई 10 कार डीएल 4सी एनए 1530 को विधिक कार्रवाई हेतु थाना कोतवाली नगर के सुपुर्द किया। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट:-पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा पीआरवी 1041 व कंट्रोल रूम के कर्मचारियों द्वारा किये गये सराहनीय कार्य के लिए प्रत्येक कर्मचारी को नगद 1000 रुपये से पुरस्कृत किया गया।